



## **JAGSONPAL PHARMACEUTICALS LIMITED**

Regd. Office. T-210 J, Shahpur Jat, New Delhi - 110 049 (INDIA)  
Fax 0091-11-26498341, 26494708, Phone: 0091-11-46181100, 46109900  
Email: nandita.singh@jagsonpal.com  
CIN No. L74899DL1978PLC009181

Date: August 07<sup>th</sup>, 2020

To, The Department of Corporate Services- Listing <b>BSE Ltd</b> Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001	To, National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051
<b>Scrp Code: 507789</b>	<b>Symbol: JAGSNPHARM</b>

**Sub: Intimation of Transfer of Equity Shares for the year 2012-13 of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account**

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Para A of Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the following documents as required under Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016:-

1. Copy of Circular Letter sent to shareholders.
2. Copy of Newspaper Advertisement published on August 07, 2020, in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi).

This is for your information and records

Thanking You,

For **JAGSONPAL PHARMACEUTICALS LIMITED**

**Nandita Singh**  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
**Membership No.: A48520**

Encl.: As above





NIT, Govt. of West Bengal
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers Buildings, Kolkata-700011 from the eligible contractors for the following works.

Name of Work: 1. COMPREHENSIVE ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT (CMC) OF CCTV SECURITY SYSTEM, PASSIVE NETWORKING, PUBLIC ADDRESS SYSTEM WITH ACCESSORIES & WI-FI SYSTEM INCLUDING FAULT REPAIR OF ALL PARTS AND COMPONENTS INSTALLED AT BANGA BHAWAN-3, HAILY ROAD, NEW DELHI - 110001 (for One Year) [Job No: KIT/RW/025 of 20-21]

Tender ID: 2020\_WBPWD\_292201\_1
Tender Reference No: WBPWD/EKITE/NIT-20/21/720-21 Bid Submission Closing(Online): 19.08.2020 up to 2 PM.

2. COMPREHENSIVE ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT (CMC) OF CCTV SECURITY SYSTEM, PASSIVE NETWORKING, PUBLIC ADDRESS SYSTEM WITH ACCESSORIES & WI-FI SYSTEM INCLUDING FAULT REPAIR OF ALL PARTS AND COMPONENTS INSTALLED AT BANGA BHAWAN-2, PT. UMA SHANKAR DIXIT MARG, CHANAKYAPUR, NEW DELHI- 110021 (for One Year) [Job No: KIT/RW/025 of 20-21]

Tender ID: 2020\_WBPWD\_292202\_1
Tender Reference No: WBPWD/EKITE/NIT-20/21/720-21 Bid Submission Closing(Online): 19.08.2020 up to 2 PM.

For details information/ downloading/ uploading etc. visit the Website: https://tenders.wb.nic.in or https://wbidders.gov.in. Conjunction or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division

SBI State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch
E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMovable ASSETS
E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the 'Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with provisions of Section 13(1)(c) of the Securitization and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

SBI State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch
E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMovable ASSETS
E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the 'Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with provisions of Section 13(1)(c) of the Securitization and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

INDAG RUBBER LIMITED
Regd. Office: Khemka House, 11 Community Centre, New Delhi - 110017
INDAG E-AUCTION NOTICE FOR SALE OF IMMovable ASSETS
Pursuant to the provisions of Regulation 29 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, August 13, 2020 to consider inter-alia, the un-audited financial results for the quarter ended June 30, 2020.

SUNCITY AVENUE 76
AN AFFORDABLE HOUSING PROJECT WITH INTEREST SUBSIDY UNDER SECTION 80B(1)(iii) OF THE INCOME TAX ACT, 1961
Sector: 14, Indira Park, Gurgaon (Haryana)
Project Details: 1. Categories/Developers: Suncity Projects Pvt. Ltd. 2. Location: Sector 14, Indira Park, Gurgaon (Haryana). 3. Provisions: 716 nos. of apartments out of 1454 nos. of total nos. are available in the project.

Table with 4 columns: Category, Unit, Carpet Area, and Sale Price. Total Apartments: 716.

1. The applicant shall not be deemed to have entered into any binding contract... 2. The applicant shall not be deemed to have entered into any binding contract... 3. The applicant shall not be deemed to have entered into any binding contract...

IEX INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED
INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED
Corporate Office: Unit No. 3, 4, 5 & 6, Fourth Floor, TDI Centre Plot No. 7, District Centre, Jasola, New Delhi 110 025

Notice is hereby given that the 14th (Fourteenth) Annual General Meeting of the Company ("14th AGM") will be convened on Friday, August 28, 2020 at 11:00 a.m. IST through Video Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations 2015") read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/MCO-1/CIRP/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular").

1. The applicant shall not be deemed to have entered into any binding contract... 2. The applicant shall not be deemed to have entered into any binding contract... 3. The applicant shall not be deemed to have entered into any binding contract...

Udaipur Main Branch
Udaipur Main Branch
Udaipur Main Branch

Udaipur Main Branch
Udaipur Main Branch
Udaipur Main Branch

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

Table with 2 columns: Name of the Corporate Debtor and Date of Incorporation of Corporate Debtor. Includes Sunshin Infrabuild Corporation Limited.

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

REVAHI EQUIPMENT LIMITED
Regd. Office: Coli-Bahar, Malaharipatti, Polonnaruwa - 641 650, C/O No. 2, 201/277, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

Home First Finance Company India Limited
CIN: U65990MH2010PTC240703
Home First Finance Company India Limited
Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

NOTICE OF SALE THROUGH PRIVATE TREATY
Sale of Secured assets under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 - (Weir Under Rule 6 (g))

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

Okhla Industrial Estate SME Branch
4, DSIDC Shed, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110025

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

JAGSONPAL PHARMACEUTICALS LIMITED
Regd. Office: T210 J, Shajapur Jct, New Delhi-110049

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...

1. Name and registration number of the resolution professional... 2. Name, address and e-mail of the resolution professional... 3. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional...





Dear Shareholder,

**SUB: TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY**

Attention of the members is drawn that the dividend for the financial year 2012-13 was declared at Annual General Meeting (AGM) of the Company held on September 30, 2013.

We now wish to inform you that, in terms of provisions of Section 124, 125 and other applicable provisions the Companies Act, 2013 (“the Act”) read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the IEPF Rules), all dividend which remains unpaid/unclaimed for a period of 7 consecutive years is required to be transferred by the Company to IEPF, established by the Central Government and all underlying shares in respect of which dividend remains unpaid/unclaimed for 7 consecutive years also needs to be transferred to Demat account of IEPF Authority along with such unpaid dividend.

As per our records, you have not encashed any dividend, declared by the Company during the last 7 years. Accordingly, you must claim for unpaid dividend. In case the Company does not receive necessary documents required for claiming unpaid dividend before the due date i.e. 06<sup>th</sup> November, 2020, the Company shall, in order to comply with the requirements of the Act and IEPF Rules, transfer the shares to the Demat Account of IEPF Authority after 06<sup>th</sup> November, 2020, as per the procedure set out in the Act and IEPF Rules without any further notice to the shareholder. The Shareholder may note that once the dividend and their corresponding shares are credited to the Demat Account of IEPF Authority, no claim shall lie against the Company in respect thereof, pursuant to the Act and IEPF Rules.

In view of the above, we request you to make an application to our Registrar and Share Transfer Agent (“RTA”), M/s MCS Share Transfer Agent Limited, immediately to claim the unclaimed dividend lying with the Company. In case the dividend is not claimed on or before 06<sup>th</sup> November, 2020 the Company shall, with a view to comply with the Rules, transfer such shares to the Authority without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company with respect of the shares transferred to the Authority. However, the unclaimed dividend and shares transferred to the Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the concerned shareholders from the Authority after following the procedure prescribed by the Rules, by making an online application in Form IEPF 5 ([www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in)) and by simultaneously sending physical copy of the same duly signed (as per the registered specimen signature) along with requisite documents, enumerated in the said Form to the Nodal Officer of the Company for verification of your claim.

The shareholder(s) holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, may note that upon transfer of shares to IEPF Authority the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

In case of shares held in demat form, the Company would be informing respective depository by way of corporate action or such other mode as may be prescribed by the Ministry of Corporate Affairs for transfer of such shares in favour of the Authority, who would affect the transfer of the same in favour of the Authority.

Further, note that the dividends, which remain unpaid/ unclaimed for a period seven (7) subsequent years from the date of its transfer to Unpaid Dividend Account, shall continue to be transferred to IEPF as per the provisions of the Act read with the Rules. In view of the above, we once again request you to immediately claim your unclaimed Dividends for the past seven (7) years on or before 06<sup>th</sup> November, 2020, so as to avoid transfer of your shares to the Authority.

For any queries on the aforesaid subject the shareholder is requested to contact the Company or Company's Registrar and Share Transfer Agent with a request giving necessary details (i.e. Folio no, DP-ID & client ID no. (if any), current address and contact numbers & details of Non-receipt of the Dividend Warrant etc.) at the earliest at the following addresses:

M/s MCS Share Transfer Agent Limited,  
**Unit: JAGSONPAL PHARMACEUTICALS LIMITED,**  
**F-65, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi – 110020,**  
Ph. & Telfax: 011-41406148, Email: [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com) Website: [www.mcsregistrars.com](http://www.mcsregistrars.com)

OR

The Company Secretary  
**JAGSONPAL PHARMACEUTICALS LIMITED**  
**T-210 J, Shahpur Jat, New Delhi – 110049**  
Tele.: 011-46109900 & 011-46181100  
Email: [nandita.singh@jagsonpal.com](mailto:nandita.singh@jagsonpal.com), website: [www.jagsonpal.com](http://www.jagsonpal.com)

Yours truly  
For **JAGSONPAL PHARMACEUTICALS LIMITED**

**Date: 06<sup>th</sup> August, 2020**  
**Place: New Delhi**

**Sd/-**  
**NANDITA SINGH**  
**Company Secretary & Compliance Officer**